



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 9) पटना, सोमवार, 4 जनवरी 2010

सं0 3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09—12422/वि(2)
वित्त विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2009

विषय:—वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को धुलाई भत्ता की वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्टम आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

(2) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के वैसे सरकारी सेवकों जिनको वर्दी अनुमान्य है, (पुलिस एवं नर्स को छोड़कर) को प्रतिमाह रु0 60 (साठ) पुनरीक्षित दर पर धुलाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

(3) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवार,
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 9-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>